Technocraft Industries (India) Limited Regd. Office: Opus Centre, 2nd Floor, Central Road, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 93 Tel: 4098 2222: Fax No. 2836 7037: CIN: L28120MH1992PLC069252 Email: investor@technocraftgroup.com. website: www.technocraftgroup.com **NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, November 14, 2022, inter- alia to consider and approve the Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter/ half year ended September 30, 2022. This intimation is also available on the website of the Company at www.technocraftgroup.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Technocraft Industries (India) Limited

Place: Mumbai Neerai Rai Date: November 01, 2022 Company Secretary

🌃 वैक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda - Branch Office: Bank of Baroda, E-Vijay, Bharatpui POSSESSION NOTICE (for Immovable Property/ies)

As per Appendix-IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Vhereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda under th ecuritization and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes Securitization and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand notice dated 40.08.2022 calling upon the borrower Mr. Rohitash Kumar S/o Ramesh Chand to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 10,22,100.86 (Rupees Ten Lakh Twenty Two Thousand One Hundred & Eighty Six Paisa only) as on 04.08.2022 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the said Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 1st day November of the year 2022.

lovember of the year 2022.

he Borrower/Guarantors/Mortgager in particular and public in general is hereby cautione The Borrower/Guarantors/mortgager in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/fes will be subject to charge or Bank of Baroda for an amount of Rs. 10,22,100.86 (Rupees Ten Lakh Twenty Two Thousand One Hundred & Eighty Six Paisa only) and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges, and expenses till date of payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in the Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13.

time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES 1. All the part and parcel of the Residential Property consisting of land and house situated at village Ekta, Panchayat Samiti- Sewar, **Tehsil & Dist. Bharatpur admeasuring to 80.86 Sq. Yds** (Patta No. 070 dt 06.07.2017 issued by Gram Panchayat- Ekta, Distt.-Bharatpur) belonging to **Shri Ramesh Chand Jatav S/0 Sh Mitthu Ram Bounded** as under: On the **North** by -20 Ft. (On this side Gali), On the **South** by -15 Ft. 6 inches (On this side Road), On the **East** by - 38 Ft. (On this side Road), on the **West** - 44 Ft. (On this side Road), of the **West** - 44 Ft. (On this side Road), on the **Control** 12 Pt. 13 Pt. 14 Pt. (On this side Road), on the **Control** 13 Pt. 14 Pt. (On this side Road), on the **Control** 14 Pt. (On this side Road), on the **Control** 15 Pt. 6 Inches (On this side Road), on the **Control** 15 Pt. 6 Inches (On this side Road), on the **Control** 16 Pt. 16 Pt. 16 Pt. 16 Pt. 16 Pt. 17 Pt. 16 Pt. 17 Pt. 17 Pt. 17 Pt. 17 Pt. 17 Pt. 17 Pt. 18 Pt. the West - 44 Ft. (On this side house of Narvada). 2.01 the part and parcel of the Residential Property consisting of land and house situated in village Ekta, Panchaya Samiti- Sewar, Tehsil & Distt. Bharatpur admeasuring to 198.37 Sq. Yds (Patt No.069 dt 06.07.2017 issued by Gram Panchayat- Ekta, Dist.-Bharatpur) belonging to Shri Maharaj Singh Jatav S/o Sh Mitthu Ram Bounded as under: On the North by -86 Ft. (On this side House of Chinga) On the **South** by – 86 Ft. (On this side House of Kunwar Singh) On the **East** by – 18 Ft. 6 inches (On this side House of Naresh) On the **West** - 23 Ft. (On this side road)

Phool Singh Meena West - 23 Ft. (On this side road)
Date: 01.11.2022 Place: Bharatpur (Authorised Officer) Bank of Baroda

INVITATION FOR PARTICIPATION IN SWISS CHALLENGE PROCESS FOR SALE/ASSIGNMENT OF DEBT EXPOSURE IN KSK MAHANADI POWER COMPANY LIMITED ("KMPCL")

IDBI Capital Markets & Securities Limited ('ICMS') has been mandated by an insurance company as "Process Advisor" for assisting and advising it on the bid process and matters incidental thereto in connection with the sale/assignment of its debt exposure in KMPCL under Swiss Challenge Method, in accordance with the regulatory guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and other applicable laws.

ICMS, on behalf of said company invites expression of Interest ('EOI') from Asset Reconstruction Companies ('ARCs') to acquire the debt exposure of KMPCL. It proposes to undertake a Swiss Challenge Bid Process ('Bid Process') based on an existing offer in hand ('Anchor Bid') on 'All Cash' basis. Transfer of financial assets shall be on "As is where is and whatever is" and "without recourse". The Anchor Bid shall have a preferential right to acquire the total exposure under the Bid Process as per terms described in the process note Interested bidders should submit EOI and execute the Non-Disclosure Agreement ('NDA') whereafter the said bidders would be allowed access to the bid documents and electronic da room for conducting due diligence. Further details on the Bid Process would be provided in the process note. For other details, please visit the website www.idbicapital.com and click on Tender & Bids icon. EOI has to be submitted either in hard copy to IDBI Capital Markets & Securities Limited, 6th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400005 or electronically to project.ganga@idbicapital.com on or before November 07, 2022 by 4.00

Any of the terms and conditions of the Bid Process may be amended or changed at any stage by ICMS and the same will be hosted on the website of ICMS.

In case of any other clarifications required, please contact:

ı	Contact Persons	Contact Details	E-mail ID
ı	Mr. Vivek Punjabi	+91 22 2217 1934/	
ı		9892299936	project.ganga@idbicapital.com
ı	Mr. Aman Agrawal	+91 22 2217 1882/	
ı		9004076001	
ı			

Note: ICMS reserves the right to cancel or modify the Bid Process and/or disqualify any eligible party, at any stage without assigning any reason and without any liability, and the decision of ICMS in that regard shall be final and binding on all concerned parties associated in the Bid Process.

(T) IDBI capital



REC Limited (A Maharatna Government of India Enterprise) CIN: L40101DL1969GOI005095 | GST: 06AAACR4512R3Z3

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM **DIVIDEND FOR FY 2022-23**

Notice is hereby given in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has fixed Wednesday, November 9, 2022 as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of interim dividend @ ₹5/- per equity share for the financial vear 2022-23, as declared by the Board of Directors in its meeting held on Thursday, October 27, 2022. The said interim dividend shall be paid/dispatched on Thursday, November 24, 2022 to those shareholders whose names appear (a) as beneficial owners in the statement(s) to be furnished by the Depository(ies) as at the close of business hours on Wednesday, November 9, 2022 in respect of shares held in electronic form; and (b) as members in register of members on Wednesday, November 9, 2022 in respect of physical shares

Further, members are requested to register/update their e-mail IDs with depository participant(s)/Registrar & Transfer Agent (R&TA) and contact the R&TAi.e. M/s Kfin Technologies Limited, Unit: REC, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 Tel.: 91-40-67161500 or e-mail at einward.ris@kfintech.com / <u>balajireddy.s@kfintech.com</u> / <u>complianceofficer@recl.in</u> for claiming any unpaid/unclaimed dividend amount pertaining to interim dividend for the financial year 2015-16 and thereafter. Further, investors are also advised to approach the IEPF Authority for claiming unpaid/unclaimed amounts, if any, relating to final dividend for financial year 2014-15 or before, which have become due for transfer/already been transferred to IEPF

For REC Limited

Place: Gurugram (J.S. Amitabh) Executive Director & Company Secretary Date: 1 November, 2022

Note:- As earlier informed, dividend income is taxable in the hands of shareholders. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit forms 15G/15H on annual basis and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their depository participant(s) or with the Company/R&TA at the e-mail IDs mentioned above



Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi- 110066, CIN: L74999DL2003G01118633, Email: investors@rvnl.org
Phone No.: 011-26738299, Fax: 011-26182957

NOTICE lotice is hereby given pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing

Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Thursday**10th **November**, 2022, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year nded 30th September, 2022. Further, pursuant to the "RVNL code of conduct for regulating and reporting trading by

Designated Persons and their immediate relatives" the **Trading Window Closure** Period has commenced from **1st October, 2022** and will end 48 hours after the financial results are made public on 10th November, 2022.

he intimation contained in this notice is also available on website of the Company a www.rvnl.org and website of stock exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Rail Vikas Nigam Limited Place: New Delhi Kalpana Dubey Date: 01.11.2022 Company Secretary & Compliance Officer



REIDE Reg. office: 7th Floor, Block 06, Udyog Bhavan,
Gandhinagar-382011. Ph: 079-23232728/29. Reg. office: 7th Floor, Block 06, Udyog Bhavar Email id : transactionadvisor@gride.org.in Website: www.gride.org.in

E-TENDER NOTICE The Gujarat Rail Infrastructure Development Corporation Limited (G-RIDE), Gandhinagar invites online tender through EPC mode in Single Stage Two Packet System from eligible Contractors for construction of the

Tender No. Name of Work Cost (mR) Tender No. "Construction of Gati Sakhti Multi Model Cargo Terminal (GCT) at Rafleshwar with PIPC/ 2022-23/ 006 Morbi, (approx. length - 4.574 Km) in Rajkot Division of Western Railway Estimated Cost (mR) Tender Name of Work Cost (mR) Tender Bid Documents Date of Uploading Tender Bid Documents Online Tender Opening of Open		, , - ,				
Sakhti Multi Model Cargo Terminal (GCT) at Rafleshwar with EPC/ 2022-23/ Makansar Station near Morbi, (approx. length - 4.574 Km) in Rajkot Division of Western		Name of Work	Cost (In Rs.)	Tender Bid	Submission of	Opening of
	EPC/ 2022-23/	Sakhti Multi Model Cargo Terminal (GCT) at Rafleshwar with Rail Connectivity from Makansar Station near Morbi, (approx. length - 4.574 Km) in Rajkot Division of Western	190.52	04.11.2022	15.12.2022	15.12.2022

Important notes: Bid documents can be downloaded from the website www.nprocure.com (Tender ID : 563335). Pre-Bid meeting shall be held on 22nd Nov 2022 at 11.30 hrs in G-RIDE office. Director (Project & Planning), G-RIDE Place : Gandhinagar, Date : 02.11.2022

YES // BANK

YES BANK LIMITED

Regd. & Corporate Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055. CIN: L65190MH2003PLC143249, E-mail: communications@yesbank.in, Website: www.yesbank.in

Publication of Notice u/s 13 (2) of the SARFAESI Act

Notice is hereby given that the under mentioned borrower(s)/Co-Borrower(s)/mortgagor(s) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the facilities obtained by them from the Bank and whose facility account has been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses out they have been returned un-served and as such they are hereby informed by way of this public notice.

S.	Account	Type of	Name of Borrowers,	O/s. As per	NPA Date
No.	Number	Facility	Co-borrowers, Mortgagors	13(2) Notice	Notice Date
1.	1928890 0000027	Secured Business Loan- Drop-line Overdraft	Mrs. Rehana Baby (Borrower & Mortgagor) Mr. Mohd. Meharban (Co-Borrower) Mrs. Shabista (Co-Borrower & Mortgagor) Mrs. Mohammed Usman (Co-Borrower)	Rs. 2,36,50,489.91/- due as on 14-Oct-2022	28-09-2022 15-10-2022

Details of secured asset: All the piece and parcel of the Property bearing No. 2725-2729, Ward No. XIV, area measuring about 196.4 Sq. Yds. Plot no. 4 (East), Sadar Thana Road, Delhi-110006

The above borrower(s)/co-Borrower(s)/mortgagor(s) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under subsection (4) of Section 13 of SARFAESI Act

Furthermore, this is to bring to your attention that under Section 13 (8) of the SARFAESI Act, in case our dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

Dated: 02.11.2022 Authorised Office For YES BANK Limited Place: Delhi



VARUN BEVERAGES LIMITED

Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Corporate Office: RJ Corp House, Plot No-31, Institutional Area, Sector-44, Gurugram-122002 (Haryana)
Tel: +91-124-4643100, Fax: +91-124-4643303, E-mail: complianceofficer@ricorp.in. Website: www.varunpepsi.com

Statement of consolidated financial results for the quarter ended on 30 September 2022 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

		(₹ in million, e	xcept per share data)
Particulars	Three months ended on 30 September 2022 (Unaudited)	Year to date 30 September 2022 (Unaudited)	Three months ended on 30 September 2021 (Unaudited)
Total income from operations	32,589.24	1,11,629.61	24,773.68
Net profit for the period before tax	5,111.81	19,340.35	3,504.09
Net profit for the period after tax	3,954.85	14,685.90	2,579.00
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,419.84	11,083.79	2,507.94
Equity Share Capital (face value of ₹ 10 each)	6,495.50	6,495.50	4,330.33
Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised for quarters and Year to date) (a) Basic (b) Diluted	5.87 5.87	21.90 21.90	3.70 3.70

See accompanying notes

Place : Gurugram

Dated: 01 November 2022

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges unde Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015, The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.varunpepsi.com).
- These standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months period ended on 30 September 2022 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Varun Beverages Limited ("VBL" or "the Company") at their respective meetings held on 01 November 2022. The Statutory Auditors have conducted a
- VBL follows calendar year as its financial year as approved by the Company Law Board, New Delhi
- The key standalone financial information of the Company is given below:

(₹ in million) Year to date Three months Three months 30 September 2022 ended on ended on **Particulars** 30 September 2022 30 September 2021 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 25.016.50 90,518.47 17,105.62 Revenue from operations Net profit for the period before tax 3.831.23 16.251.27 2,052.12 Net profit for the period after tax 2.876.62 12.113.51 1.459.18 2,880.85 12,198.33 1 419 37 Total comprehensive income for the period

For and on behalf of Board of Directors of Varun Beverages Limited

Sd/-Raj Gandhi Whole Time Director

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED



NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

The provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), amongst other matters, contain provisions for transfer of unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares, in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF Account. Companies are required to inform the shareholders at the latest available address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority three months prior to the due date of transfer of shares and simultaneously publish the notice in the newspapers. This Notice is published pursuant to the provisions of the Act and Rules.

Individual communication is being sent to the registered address of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are liable to be transferred to IEPF.

The complete details of these shareholders are being uploaded on the Company's website www.tcs.com.

In case the dividends are not claimed by the concerned shareholder(s) by February 11, 2023, necessary steps will be initiated by the Company to transfer shares held by the concerned shareholder(s) to IEPF without further notice in the following manner:

In case the shares are held

- In physical form New share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholder will
- In demat form The Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in shareholder's demat account in favour of IEPF.

The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF Authority by sending physical copy of requisite documents to the Company for obtaining the entitlement letter, pursuant to Circular dated July 20, 2022 issued by IEPF Authority, and there after submitting online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividends and shares of the concerned shareholder(s) uploaded by the Company on its website www.tcs.com shall be treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact TSR Consultants Private Limited, Unit: Tata Consultancy Services Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: +91 810 811 8484, Fax: +91 22 6656 8494, Website: https://www.tcplindia.co.in

For TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Sd/-**Pradeep Manohar Gaitonde** Company Secretary

Date: November 1, 2022

Place: Mumbai

Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021

Tel: +91 22 6778 9595

Email: investor.relations@tcs.com Website: www.tcs.com CIN: L22210MH1995PLC084781

Vardhmān VARDHMAN SPECIAL STEELS LIMITED

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter & half year ended 30 September, 2022

Regd. Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141010 CIN: L27100PB2010PLC033930, PAN: AADCV4812B Website: www.vardhmansteel.com. E-mail: secretarial.lud@vardhman.com

(Rs. In Lakhs **Particulars** Half Year Half Year Year Ended Ended Ended Ended Ended 30th Sept, 2022 30th Sept 2021 30th Sept 31st March 2022 2021 2022 Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited 45,736.68 47,507.51 33,839.25 93,244.19 67,117.22 139,735.13 **Total Income from Operations** Net Profit / (Loss) for the period 4,062.79 3,727.13 7,819.01 7,995.68 (before Tax, Exceptional and /or extraordinary items) 3,756.22 4,062.79 3,727.13 7,819.01 7,995.68 15,833.56 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and) or extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period 3,029.60 2,429.20 5,208.93 10,075.0 after tax (after Exceptional and /o extraordinary items) 5,241.87 10,093.79 Total Comprehensive Income for 2.806.31 3.034.90 2.445.67 5.841.21 the period [Comprising Profit/(Loss for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)] 4.056.12 4,056.12 4,050.70 4,056.12 4,050.70 4,056.12 Paid-up equity capital (face value Rs. 10/- per share) 55.891.55 54.484.64 46.544.78 55.891.55 46.544.78 51.439.92 Reserves (excluding revaluation reserve) 14,518.99 14,518.99 14,468.74 14,518.99 14,468.74 14,518.99 Securities Premium Account 59,947.67 58,540.76 50,595.48 59,947.67 50,595.48 55,496.04 Net worth Paid up debt Capital / Outstanding debt Outstanding Redeemable Preference shares 0.30 0.50 0.21 0.50 0.23 Debt Equity Ratio (times) 0.21 Earnings Per Share (of Rs. 10/each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic 6.90 7.47 6.00 14.37 12.86 24.87 (b) Diluted 7.42 12.76 6.86 5.94 14.28 24.71 Capital Redemption Reserve 15 Debenture Redemption Reserve 16 Debt Service Coverage ratio 1.62 1.09 2.82 2.01 2.97 Interest Service Coverage ratio 8.86 10.16 7.79 9.48 8.29 8.41

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015. The full format of the detailed Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on website of the company www.vardhman.com/www.vardhmansteel.com

2) In the Annual General Meeting of the Company held on 30 September 2022 the shareholder had approved the Board recommendation of a dividend of Rs.3.50 per equity share of Rs.10 each fully paid up amounting to

3) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on Company's website i.e www.vardhman.com / www.vardhmansteel.com and on the website of the

Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. 4) The Financial Results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as

prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder For Vardhman Special Steels Limited

(Sachit Jain) Place : Ludhiana Date: 1 November 2022 Vice-Chairman & Managing Director

Indusind

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

सी-201, द्वितीय तल, बिजनेस स्कवायर सोलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई- 400093 (अचल संपत्ति हेतु)

(परिशिष्ट № प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अनुसार) ातः (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन (अधिनियम 2002 के अन्तर्गत (2002 सं. 54) एवं धारा 13(2) सपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 22.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जारी किया, जिसमें ऋणी एवं सह-ऋणी मैसर्स नामधार टिम्बर जरिये साझेदार- श्री भगवंत सिंह एवं श्री गुरमीत सिंह (ऋणी), श्री भगवंत सिंह, श्री गुरमीत सिंह, सुश्री दविंदर कौर एवं सुश्री राजिंदर कौर (सह-ऋणी) जरिये ऋण खाता नं. DBC01600N को नोटिस में उल्लेखित राष्टि रू.60,75,238.25 (रूपये साठ लाख पिचहत्तर हजार दो सौ अडतीस और पच्चीस पैसे मात्र) दिनांक 13.07.2022 तक इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणियों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, ऋणियों एवं आमजन को यह नोटिस दिय जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा तारीख 28 माह अक्टबर वर्ष 2022 से प्राप्त क लेया है। ऋणी/सह-ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतदुद्वारा सावधान किया जाता है कि इस मंपत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार इंडसइंड बैंक लेमिटेड के रू.60,75,238.25 (रूपये साठ लाख पिचहत्तर हजार दो सौ अडतीस और पच्चीस पैसे मात्र) दिनांक 13.07.2022 तक और आगे के ब्याज, लागतें, शुल्कों एव खर्चों के अध्यधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें सम्पत्ति नं. 8/116, क्षेत्रफल 100

वर्गगज जो रमेश नगर, नई दिल्ली— 110015 में स्थित, जिसकी सीमाएं निम्न हैः उत्तर वर्गगंज जा रमश नगर, गर्श वरसा - 1705.05 - रोड, दक्षिणः सर्विस लेन, पूर्वः प्लॉट नं. 117, पश्चिमः प्लॉट नं. 115 प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांकः 28.10.2022, स्थानः दिल्ली

IndusInd Bank

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

सी-201, द्वितीय तल, बिजनेस स्कवायर सोलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई- 400093

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(परिशिष्ट Ⅳ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अनुसार) यत: (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण और पनर्गठन एवं प्रतिभति-द्वित का प्रवर्तन (अधिनिय 2002 के अन्तर्गत (2002 सं. 54) एवं धारा 13(2) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम h अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिं दिनांक 18.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट दारा जारी किया. जिसमें ऋणी एवं सह-ऋणी मैसर्स सरस्वर ओवरसीज जरिये प्रोपराईटर सुश्री स्नेहा भाटिया (ऋणी), मैसर्स युवराज ओवरसीज जरिये इसके प्रोपराईटर श्र ाहुल कुमार, सुश्री स्नेहा भाटिया एवं श्री राहुल कुमार (सह-ऋणी) जरिये ऋण खाता नं. DDW00141N & DDW00064N को नोटिस में उल्लेखित राशि रू.85.67.978.35 (रूपये पिच्यासी लाख सडसठ हजार नौ सं अठहत्तर और पेंतीस पैसे मात्र) दिनांक 17.06.2022 तक इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीत हरने के लिए कहा गया था। ऋणी/सह-ऋणियों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, ऋणियों ए**ठ** भामजन को यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) संपतित उक्त नियम 9 के अंतर्ग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा तारीख 28 माह नक्टूबर वर्ष 2022 से प्राप्त कर लिया है। ऋणी/सह-ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वा गावधान किया जाता है कि इस संपत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार इंडसइंड बैंक लिमिटेड के रू.85,67,978.35 (रूपये पिच्यासी लाख सडसठ हजार नौ सौ अठहत्त और पेंतीस पैसे मात्र) दिनांक 17.06.2022 तक और आगे के ब्याज, लागतें, शुल्कों एव खर्चों के अध्यधीन होगा अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें सोसायटी फ्लैट नं. 37, भूतल, केटगर् एचआईजी, लक्ष्मी विहार अपार्टमेंट्स के नाम से ज्ञात लक्ष्मी विहार कॉ—ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग . सोसायटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में, प्लॉट नं. 24 पर निर्मित, बोदेला फेज— ।।, जो एच ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली— 110018 में स्थित, सीमाएं— पूर्वः प्रवेश, पश्चिमः अन्य फ्लैट उत्तरः फ्लैट नं. 38, दक्षिणः इंटरनल रोड। दिनांकः 28.10.2022, स्थानः दिल्ली वास्ते इंडसइंड बैंक लिमिटेड

प्रपत्र नं. 5

पंजीकृत ए/डी डीआरटी/एलकेओ

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ 600/41, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-226007 (न्यायाधिकार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का हिस्सा)

(प्रकाशन द्वारा जवाब देने एवं उपस्थित होने के लिए सम्मन)

(बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) के नियम 12 एवं 13 के अधीन प्रतिवादी को सम्मन)

मूल आवेदन सं. 641 ऑफ 2022 आवेदक यस बैंक

मैसर्स अमित इंटरप्राइजेज एवं अन्य

...... प्रतिवादीगण

1. मैसर्स अमित इंटरप्राइजेज, अपने स्वत्वाधिकारी वकील सिंह, दूसरी मंजिल, ए21 अमित इंटरप्राइजेज, सेक्टर-58, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301. 2. वकील सिंह, पिता बैजनाथ सिंह, आवास-बिहनपुरा, सेक्टर-58, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301

दूसरा पताः दूसरी मंजिल, ए21, अमित इंटरप्राइजेज, सेक्टर-58, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301.

ऊपर उल्लिखित आवेदन में. इस सम्मन के प्रकाशन के उपरांत आवेदक अथवा उनके सलाहकार/यथावत रूप से अधिकृत एजेंट को इसकी प्रतिलिपि सेवित करने के उपरांत आपको व्यक्तिगत अथवा यथावत रूप से अधिकृत एजेंट अथवा वैध अधिवक्ताओं द्वारा दस्तावेज तथा हलफनामा (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बक प्रारूप में उत्तर दायर करना होगा तथा तदपरांत इस न्यायाधिकरण में दिनांक 21.12.2022 को सबह 10.30 बजे उपस्थित होना होगा, अन्यथा आपकी गैर हाजिरी में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

> पंजीयक ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सान्ताक्रज ईस

शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 1/9, पटेल नगर (वेस्ट), नई दिल्ली-110008

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

सरफैसी नियम के नियम 9(1) के साथ पठित नियम <u>8(6)</u> के <u>तहत</u> प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीर आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेत ई-नीलामी बिक्री सुचना।

एतद्वारा जनसामान्य और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा येस बैंक लिमिटेड अर्थात प्रतिभूत लेनदार के अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, 14 जनवरी, 2022 तक प्रतिभूत लेनदार के कर्जदारों, सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की ओर बकाया रु. 4,57,36,292.39/- (रुपये चार करोड सत्तावन लाख छत्तीस हजार दो सौ बानबे एवं उनतालीस पैसे मात्र) तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं प्रभारों की वसूली के लिए ''जहां है जैसे है,''''जो है यही है'', तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर 21 नवम्बर, 2022 को बिक्री की जाएगी। इच्छुक पार्टियों/निविदाकारों द्वारा सम्पत्तियों का निरीक्षण अधिकत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात 9 नवम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है।

कर्जदार/जमानती(यों)/प्रतिभृत प्रावधानकर्ता/ओं के नाम

(1) मैसर्स अंबे स्टील ट्रेडर्स, इसके प्रोपराइटर श्री विशाल जैन (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता) के माध्यम से, (2) मैसर्स अनुप्रेक्षा ऑटोकॉर्प, इसके प्रोपराइटर श्री दीपांशु जैन (उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता) के माध्यम से , (3) मैसर्स एस एस पाइपिंग प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर श्री रमेश कुमार जैन (उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता) के माध्यम से, (4) श्री विशाल जैन (सह-ु उधारकर्ता), (5) श्री दीपांशु जैन (सह–उधारकर्ता), (6) श्री रमेश कुमार जैन (सह-उधारकर्ता) और (7) श्रीमती सुमन जैन (सह-उधारकर्ता और बंधककर्ता)

संपत्ति का विवरण: संपत्ति संख्या 123 का समस्त भाग, छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल लगभग 84 वर्ग मीटर, ब्लॉक-सीयू, पीतमपुरा आवासीय योजना के लेआउट प्लान में, दिल्ली-110034 में स्थित, सीमाएं: पूर्व: प्लॉट नंबर 122, पश्चिम: प्लॉट नंबर 124, उत्तर: रोड 7 मीटर चौड़ा, दक्षिणः सर्विस लेन

14 जनवरी, 2022 तक बकाया देय : रु. 4,57,36,292.39/- (रुपये चार करोड़ सत्तावन लाख छत्तीस हजार दो सौ बानबे एवं उनतालीस पैसे मात्र)

आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 3,60,00,000/- (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 36,00,000/- (रुपये छत्तीस लाख मात्र)

भौतिक कब्जे की तिथि : 14 जुलाई, 2022

माँग सूचना की तिथि : 17 जनवरी, 2022 संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 19 नवम्बर, 2022 को 3.00 बजे अप. तक ई-नीलामा की तिथि एवं समय : 21 नवम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00

बजे अप. तक प्रत्येक 5 मिनट के विस्तार सहित बिक्री विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट लिंक https://www.yesbank.in/ www.yesbank.in में प्रावधानित about-us/media/auction-property देखें।

निविदा दस्तावेज/ई–संविदा कैटलॉग प्राप्त करने या अचल सम्पत्तियों/प्रतिभत आस्तियों के निरीक्षण में किसी कठिनाई या किसी अन्य पूछताछ के लिए यस बैंक लिमिटेड के सम्बन्धित अधिकारी श्री विनीत कुमार, मोबाइल : 91-9555490380 अथवा ई-मेल : vineet.kumar12@yes bank.in तथा मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), अहमदाबाद, वेब पोर्टल पता https://sarfaesi.auctiontiger.net के अधिकारियों से सम्पर्क करें। संविदाकार सहायता नम्बर : +91 9265562821/18 & 9978591888, 079-68136880/68136837. ई-

मेल : support@auctiontiger.net, तथा ramprasad@auctlontlger.net. सम्पन जैसा कि अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उल्लिखित है, यदि समस्त लागतों, प्रभारों तथा हमारे द्वारा किये गये व्ययों सहित हमारे बकाये बिक्री या हस्तान्तरण की निर्धारित तिथि से पूर्व

किसी भी समय अदा कर दिये जाते हैं तो प्रतिभृत आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण हमारे द्रारा नहीं किया जायेगा, और उस प्रतिभृत आस्ति के हस्तान्तरण या बिक्री के लिए हम भविष्य में कोई कदम

कर्जदार/जमानितयों के लिए बिक्री सूचना

उपर्युक्त को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत इस प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के भीतर दायित्वधारियों को उपर्युक्त राशि अदा करने की सचना के रूप में लिया जाए।

तिथि : 2 नवम्बर, 2022 स्थान : नई दिल्ली

(अधिकृत प्राधिकारी) यस बैंक लिमिटेड तारीखः 31.10.2022



कर

द्व

पत

(2)

दिनांकः 31.10.2022

कार्यालयः एससीओ 120-122, प्रथम तल, सेक्टर-17-सी, चंडीगढ़—160017, फोनः 0172—2713010, 2<mark>54888</mark>9 ई-मेलः cmmarc chd@mahabank.co.in प्रधान कार्यालयः 'लोकमंगल', १५०१ शिवाजीनगर, पुणे-411005

प्राधिकृत अधिकारी और मुख्य प्रबंधक

भौतिक कब्जा सूचना

जबिक, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 कें साथ पठित धारा 13 की उप–धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार(ओं) / जमानती(ओं) से उक्त सूचना प्राप्ति की तारीर

से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदार(ओं) द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार(ओं) और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क

नीचे उल्लिखित संपत्ति का कर्जदारों से पूर्व यथाउल्लिखित संबंधित तारीखों को **भौतिक कब्जा** ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति / यों से कोई भी लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है

तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन उपरोक्त राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के प्रभार के अधीन होगा। उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदा का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

शाखा का नाम और कर्जदार(ऑ)/जमानती(ऑ)	अचल संपत्ति/यों का विवरण	मांग सूचना / कब्जे का प्रकार और तारीख	देय राशि और ब्याज एवं अन्य प्रभार
गाखा कार्यालयः सेक्टर 15, गुडगाँव	श्रीमती रनेह अरोरा के नाम में बिक्री विलेख		रु. 37,30,803.19 और
र्जदार(ओं):— मेसर्स वेस्टर्न ऑटोमोबाइल्स,	नं. 20 द्वारा दुकान नं. 195, तिकोना पार्क,		इस पर 15.01.2015
पने प्रॉपराईटर श्री कपिल अरोरा के माध्यम से,	एनआईटी फरीदाबाद, माप 21 वर्ग गज	31.10.2022	से प्रभावी ब्याज, व्यय
कान नं. 195, तिकोना पार्क, फरीदाबाद। दूसरा	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		एवं अन्य प्रभार
ता: — निवासी 2123, दूसरा तल, सैनिक कालोनी	(घटायें वसूली		
रोरा पत्नी श्री कपिल ^{ें} अरोरा, निवासी 2123, दूर	15.01.2015 के बाद,		
) श्री गौरव अरोरा, निवासी 2123, दूसरा तल,	सैनिक कालोनी, सेक्टर 49, एनआईटी फरीद	ाबाद	यदि कोई हो)

YES BANK यंजी. व निगमित कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई — 400058

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के तहत — अचल संपत्ति के वि

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं विनिर्माण व प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 के प्रावधानों और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली. २००२ के नियम ९ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत संबंधित सूचनाओं मैं वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए यहां नीचे वर्णित संबंधित ऋणी को बुलोर्ने के लिए मांग सूचना जारी की थी।

स्थानः गुडगाँव

संबंधित ऋणी उक्त राशि का भुगतान करने में असफलें रहे, एतद्द्वारा ऋणियों और सर्वसाधारण कों सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित गिरवी संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संबंधित ऋणी व एतददारा सर्वसाधारण को एतददारा उक्त संपत्तियों के साथ व्यवहार न करने

की चेतावनी दी जाती है और इन संपत्तियों के साथ किया गया व्यवहार अनुबंध दर पर उसपर ब्याज के सहित यहां नीचे वर्णित संबंधित राशि के लिए यस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा ।

(यों) / गारंटर(ओं) गिरवीकर्ता(ओं) के नाम	खाता सं.	गिरवी संपत्ति का विवरण	सूचना राशि (रु.)	माग सूचना तिथि पुनर्कब्जा तिथि
1. राजीव इंटरप्राइजेज (ऋणी) 2. श्री मनीष कुमार (गारंटर व गिरवीकर्ता) 3. सुश्री खेता गुप्ता (गारंटर)	0088 8460 0000 070	संपत्ति 01: पलैट नं. 104 ग्राउंड फ्लोर पर, खसरा नं. 157 के भाग पर निर्मित, क्षेत्र 84.72 वर्ग मीटर गंगा रेजीडेंसी मौउजा किशनपुर, तहसील कोइल, जिला, अलीगढ़ संपत्ति 02: फ्लैट नं. एस—3 तीसरी मंजिल पर, खसरा नं. 110 के भाग पर निर्मित, क्षेत्र 91.02 वर्ग मीटर रोशन रेजीडेंसी मौउजा किशनपुर, तहसील कोइल, जिला, अलीगढ़	रू. 26,66,846.22 (रु. छब्बीस लाख छियासट हजार आट सो छियालीस व पैसे बाईस केवल)	13.05.2022 28.10.2022

अधिनियम की धारा 13(8) के अनपालन में. यदि बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किर्स अनुवार का कार्या (२००) के जानुवारा ने, बार विक्रम था हरतातरण के लिए निधारित तिथि से सहते किसी समय पर सभी लागतों, शुल्कों और हमारे द्वारा बर्ची किए या व्यय को पूरा कर दिया जाता है तो प्रतिभूतित परिसंपत्ति को हमारे द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और प्रतिभूतित परिसंपत्ति के हस्तातरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। (प्राधिकृत अधिकारी) स्थान : उत्तर पंदेश दिनांक : 28.10.2022



नेनीताल बेंक

शाखा – डी.एस.एस.–10 , हुड्डा मार्केट शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर–29 , फरीदाबाद , हरियाणा – 1210 08 , फोन नं. 0129–250 4526

अचल सम्पत्ति कब्जा नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बैंक, डी.एस.एस.–10, हुड्डा मार्केट शॉपिंग सेन्टर, सेक्टर–29, फरीदाबाद, हरियाणा–121008 शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्क्शन ऑफ फाइनेन्सियल ऐसेट्स एण्ड, इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(12) के नियम 3 के अधीन 60दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणीयों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती ऋण का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अत: अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर दिनांक 29.10 2022 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान ______ किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चें की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा—13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है ।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. माइक्रो टेक दूल्स (कर्जदार) द्वारा प्रोपराईटर करमवीर पंचाल, नि० २६, जवाहर कॉलोनी, गली जवाहर कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद 121005 3. मनोज कुमार शर्मा (जमानती) नि० मकान नं. एफआई, सेक्टर 23, संजय कॉलोनी, फरीदाबाद 1210 05

(डिमान्ड नोटिस दिनांक 06.07.2022 को रु. 11,39,154.74 (रुपये ग्यारह लाख उन्तालिस हजार एक सौ चौवन एवं पैसे चौहत्तर मात्र दिनांक 21.06.2021 तक) दिनांक 22.06.2022 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे जारी किया जा चुका है।

<u>दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण</u> : बंधॅक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि फरीदाबाद में स्थित है। उप निबन्धक फरीदाबाद के कार्यालय में बही 1 जिल्द नं. 0 , पेज नं. 31, एवं अतिरिक्त बही नं. 1. जिल्द नं. 3. पेज 97 से 99. स्थानान्तरित डीड नं. 12059 दिनांक 17.11.2014 को दर्ज है। सीमाएँ – उत्तर में मकान नं. 25, दक्षिण में 15 फीट रास्ता, पूरब में श्रीमती सुषमा भाटिया का मकान नं. 24, पश्चिम में 33 फीट चौड़ी सड़क।

रथान : फरीदाबाद , हरियाणा दिनांक: 02.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडेलवेइस एसेट रीकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेंटर एवं पंजीकृत कार्यालयः एडेलवेइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कालिना, मुम्बई-400 098 प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति

हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल प्रत्याभूत

सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना भैसर्स दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (जिसे यहां बाद में "डीएचएफएल/नियोजक" कहा गया है) की वित्तीय सविधाएं प्रदत्त कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेखि **ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी-371** के ट्रस्टियों के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत एडेलवेइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे यहां बाद में ईएआरसी/ हस्तांतरिती कहा गया है) को सुपुर्द कर दी गई है। उक्त सुपुर्दगी का अनुपालन करते हुए, ईएआरसी नियोजक से संबंधित मामले में प्रवेश कर प्रत्याभूत ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है। चूंकि ईएआरसी, प्रत्याभूत ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता के तहत सरफेसी अधिनियम की घारा 13(4) तथा उसके अधीन नियमों के अंतर्गत यहां नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

रतन्द्रारा आम तौर पर जनसाधारण को एवं विशेष रूप से कर्जदार, सह-कर्जदार वे कराधिकारी एवं गारंटीदाता को **30 दिनों की सूचना** दी जाती है कि तत्प्रामूत ऋणदाता के पक्ष में गिरवी पर रखी गई यहां नीचे उल्लेखित अचल प्रत्याभूत सम्पत्तियों पर प्रत्याभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा भौतिक केबजा कर लिया गया है एवं ईएआरसी की यहां नीचे उल्लेखित बकाया रकम के साथ उस पर आगे के व्याज एवं अन्य व्याय/लागत, कर्जवार तथ गारंटीदाता से ईएआरसी द्वारा प्राप्त रकम की कटौती के साथ, की रकम की वसूली के लिए उसे "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" एवं "वहां जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री की जाएगी। प्रत्येक सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि जमा का विवरण नीचे उल्लेखित है। नीलामी के लिए रखी जाने वाली प्रत्याभृत सम्पत्तियों का विवरण

बैंक एवं शाखा नीलामी की सं. एवं ऋण सह-कर्जदार/ का नाम का नाम, खाता नं तारीख एवं का गारंटीदात का नाम कोड 31,10,2022 (रु. में) आईसीआईसीआई कर्जदार का नाग ईएआरर्स ऋण खाता रत्नेश कुमार (कर्जदार) साथ 1358617 ट्रस्ट एससी-371, बैंक लि 07 12 2022 [196-नरीमन प्वाइंट, 35,32,036.04 9,00,000/ 90,000/ को पूर्वाहन 00042881 सत्यदेव गराई दीवान हाउसिंग (000405 11.00 (सह-कर्जदार) फाइनैंस लिमिटेड तथा राज कुमार (गारंटीदाता) (डीएचएफएल) ICIC0000004

िगरवी पर रखी सम्पत्ति का विवरणः ग्राम बसई दारापुर, सुदर्शन पार्क के नाम से ज्ञात कॉलोनी, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति सं. बी-405 (पुराना नं. डब्ल्यूजेड-244), भूमि, खसरा नं. 606, परिमाप 50 वर्ग यार्ड रूपी गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति की छत के अधिकार के बगैर पूर्ण स्वामित्व वाली बिल्ट अप असमूर्ण दूसरी मंजिल का समूर्ण एवं सर्वांगिण हिस्से के साथ उक्त प्लॉन के अधीन सूमि का समानुपतिक अधिकार के साथ वहां उपलब्ध साधारण सुविधाएं वहां पर निर्मित अवसंरचनाओं के साथ उक्त प्लॉट के अंतर्गत स्वत्वाधिकार तथा कब्जे का सम्पूर्ण अधिकार। स्वामित्व वाली बिक्री विलेख दिनांकित

14.12.2016, उप पंजीयक कार्यालय स्थान-दिल्ली। नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सभी डिमांड डाफ्ट (डीडी) ऊपर उल्लेखित टस्ट के नाम पर आहरित एवं मम्बई में भगतेय होने चाहिए। 2 ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख नीलामी की तारीख से 1 दिन पहले स्वीकार की जाएर्ग रिटेल सेंट्रल कार्यालय, मुम्बई (नीचे उल्लेखित) मे बोलियां जमा करने का स्थान नीलामी का स्थान (नीलामी के लिए वेबसाइट ई-नीलामी (https://auction.edelweissarc.in) श्री अजय कुमार मोबाइल नं. 9867945407 एवं श्री अनुज जैन मोबाइल नं. 96500963411, श्री गगनदीप सिंह मोबाइल नं. सम्पर्क व्यक्ति साथ में फोन नं 9915900090, श्री विनोद गोला मोबाइल नं. 7304948478 6 सम्पत्ति के निरीक्षण की तारीख एवं समय पूर्व प्राप्त अनुमति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट यानी https://auction.edelweissarc.in पर प्रदत्त लिंक देखें। स्थान : दिल्ली हस्ता/- अधिकृत अधिकारी कृते एडेलवेइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

दिनांक : नई दिल्ली

दिनांक : 01.11.2022

कॉम्पिटंट ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कॉम्पिटेंट हाउस, एफ–14, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 CIN: L34102DL1985PLC020668 फोन: 011-45700000 ईमेल : cs@competent-maruti.com, वेब : www.competent-maruti.com

इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेख परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 (''नियम'') की अधिसचना के अनुसार एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') के शेयरधारक जो सभी शेयरों के संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अवैतनिक या लावारिस रहा है, उक्त नियमों के त हत निर्धारित तरीके और समय में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाएगा। इस संबंध में कंपनी व्यक्तिगत रूप से उन संबंधित शेयरधारकों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिसूचना कर रही है , जिनका लाभांश वित्त वर्ष 2014—15 से शुरू होने वाले पिछले सात वर्षो से अवैतनिक या लावारिस रहा है। ऐसे शायरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर www.competent-maruti.com पर

कंपनी के शेयरधारकों जिन्होंने वित्त वर्ष 2014—15 से शुरू होने वाले पिछले सात वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, वं कंपनी या हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को कंपनी के साथ पड़े लावारिस लाभांश का दावा करने के लिए लिख सकते हैं। पता: मेसर्स स्काईलाइन फानेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (CIN:U74899DL1995PTC071324) (यूनिट कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड) डी–153/ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली-110020, भारत। ईमेल : info@skylinerta.com फोन : +91 11-40450193)

यदि 15 जनवरी, 2023 को या उससे पहले वैध दावार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और सूचना के आईईपीएप प्राधिकरण के पक्ष में इक्विटी शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसा आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि संबंधित शेयरधारव निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन करके और फॉर्म आईपीएफ–5 में उल्लेखित अपेक्षित दस्तावेजों की भौतिक प्रति कंपनी के नोडल अधिकारी का भेजकर आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयरों और लाभांश का दावा कर सकते हैं।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारकों से कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों से संपर्क करने का

प्रति कॉम्पिटंट ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड रवि अरोड़ा कंपनी सेक्रेटर्र

मात्र) 18.10.2022 के अनुसार

रू.10,33,512.66 /- (रूपये

दस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ

बारह और छियासठ पैसे मात्र)

18.10.2022 के अनुसार

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑप सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना गिरवी संपन्ति (यों) का विवस्ता कर्जदाता (ओं) का नाम एन पीए की बकाया राष्ट्रि (बी) तारीख (सी) (रू.) (डी) अपार्टमेंट नं हार्मनी ILL/B/2005, 20वीं मंजिल 13.10.2022 कर्ज खाता क्र.HHLGRG00264997 रू 39 85 493 20 /-। अरविंद कमार श्रीवास्तव टॉवर/ बिल्डिंग नं. हार्मनी ॥, बिथोवेन्स 8 (रूपये उनतालीस लाख पचार्स सेक्टर -107. गाँव धरमपुर, गुरुग्राम -122001 हजार चार सौ तिरानवे और 2. काजल सिंह उर्फ काजल श्रीवास्तव बीस पैसे मात्र) 13.10.2022 के अनुसार 2 कर्ज खाता क्र.HLAPDMT00296530 संपत्ति नं. X-28 (पुराना नं.1531-A), पहली 12.10.2022 板. 25,01,116.79 /-। सचिन श्रीवास्तव पॉपराइटर स्कार्ड मंजिल, प्लॉट नं. C-32 का भाग, खसरा नं. (रूपये पचीस लाख एक हजार 386 और 387, गाँव उलधनपुर, नवीन शाहदरा एक सौ सोलह और उनासी पैसे टोन सेल डिवाइसेस देल्ली - 110032 **मात्र) 12.10.2022** के अनुसार 2. माधुरी श्रीवास्तव 3. प्रियंका श्रीवास्तव फ्लैट नं. -UG 4. अपर तल मंजिल. बाएं हाथ रू.14.77.622.14/-कर्ज खाता क्र. HHLNOI00286804 1. राजकमार शर्मा की ओर, प्लॉट नं. B-81, डीएलएफ दिलशाद (रूपये चौदह लाख सतहत्तर 2. ललिता एक्सटेंशन –॥. गाजियाबाद - 201005. हजार छ सौ बाईस और चौदह 3. योगेंद्र कुमार (गारंटर) पैसे मात्र) 13.10.2022 के उत्तरप्रदेश 13.10.2022 ⁴ कर्ज खाता क्र. HHLLAJ00384088 अपार्टमेंट नं.- T-3/0303, टॉवर -T-3, तीसरी रू.37,98,135.01/- (रूपये 1. राजीव दुरेजा मंजिल, लेकसाइड हाइट्स, टीडीआई लेक ग्रोव सैंतीस लाख अठ्ठानवे हजार एक 2. गीतिका दुरेजा सिटी, कुंडली, सोनीपत -131028, हरियाणा सौ पैंतीस और एक पैसे मात्र) 13.10.2022 के अनुसार 5 कर्ज खाता क्र.HLAPAGR00389152 प्लॉट नं. - 36 पर मकान,राधा नगर 18.10.2022 रू.23,07,920.96 /- (रूपये 1. देवेंद्र वर्मा प्रॉपराइटर मेसर्स देवकी कॉलोनी, सिकंदरा बोइला ओवरब्रिज के पास तेईस लाख सात हजार नौ सौ नंदन ज्वैलर्स सिकंदरा अस्पताल के सामने, मौजा सिकंदरा बीस और छियानवे पैसे मात्र) 3. देवकी नंदन वर्मा आगरा - 282001, उत्तर प्रदेश **18.10.2022** के अनुसार 3. लक्ष्मी देवी 6 कर्ज खाता क्र. HHEAGR00218982 प्लॉट नं. - 36 पर मकान राधा नगर रू.27.32.948.60 /- (रूपये सत्ताईस लाख बत्तीस हजार नौ 1. देवेंद्र वर्मा प्रॉपराइटर मेसर्स देवकी कॉलोनी. सिकंदरा बोडला ओवरबिज के पास सिकंदरा अस्पताल के सामने, मौजा सिकंदरा सौ अडतालीस और साठ पैसे

में रखे जाने वाले खातों के अनसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालों को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चय

अपार्टमेंट नं. - 1405, चौदहवीं मंजिल, टॉवर

-B3, रुद्र पैलेस हाइट्स, प्लॉट नं. GH-02B,

सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा - 201303, उत्तर प्रदेश

आगरा - 282001, उत्तर प्रदेश

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सुचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोंका निर्वहन करे. ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपृति को अधिगृहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक निवदा या निजी समझैते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों. लागतों और प्रभारों के साथ संपर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता " फेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लि

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है । प्राधिकत अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम/दिल्ली/गाज़ियाबाद/सोनीपत/आगरा/ग्रेटर नोएडा कते इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड



3. देवकी नंदन वर्मा

1. विजय कुमार वर्मा

कर्ज खाता क्र. HHLDIP00144185

3. लक्ष्मी देवी

3. मीनाक्षी

VARUN BEVERAGES LIMITED Corporate identification number: L74899DL1995PLC069839 Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Corporate Office: RJ Corp House, Plot No-31, Institutional Area, Sector-44, Gurugram-122002 (Haryana)
Tel: +91-124-4643100, Fax: +91-124-4643303, E-mail: complianceofficer@rjcorp.in, Website: www.varunpepsi.com

Statement of consolidated financial results for

the quarter ended on 30 September 2022 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in million, except per share data)

Particulars	Three months ended on 30 September 2022 (Unaudited)	Year to date 30 September 2022 (Unaudited)	Three months ended on 30 September 2021 (Unaudited)
Total income from operations	32,589.24	1,11,629.61	24,773.68
Net profit for the period before tax	5,111.81	19,340.35	3,504.09
Net profit for the period after tax	3,954.85	14,685.90	2,579.00
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,419.84	11,083.79	2,507.94
Equity Share Capital (face value of ₹ 10 each)	6,495.50	6,495.50	4,330.33
Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised for quarters and Year to date) (a) Basic (b) Diluted	5.87 5.87	21.90 21.90	3.70 3.70
See accompanying notes			,

Notes:

Place : Gurugram Dated : 01 November 2022

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formation of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com an www.nseindia.com) and on Company's website (www.varunpepsi.com).

These standalone and consolidated financial results for the guarter and nine months period ended on 30 September 2022 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Varun Beverages Limited ("VBL" or "the Company") at their respective meetings held on 01 November 2022. The Statutory Auditors have conducted a limited review of these financial results

3. VBL follows calendar year as its financial year as approved by the Company Law Board, New Delhi.

The key standalone financial information of the Company is given below:

(₹ in million

(< iii million)							
Particulars	Three months ended on 30 September 2022 (Unaudited)	Year to date 30 September 2022 (Unaudited)	Three months ended on 30 September 2021 (Unaudited)				
Revenue from operations	25,016.50	90,518.47	17,105.62				
Net profit for the period before tax	3,831.23	16,251.27	2,052.12				
Net profit for the period after tax	2,876.62	12,113.51	1,459.18				
Total comprehensive income for the period	2.880.85	12.198.33	1,419.37				

For and on behalf of Board of Directors of

Varun Beverages Limite

Rai Gandhi Whole Time Director

* Edelweiss ASSET RECONSTRUCTION